

गेट 2019

अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा

आयोजक संस्थान : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.प्रौ.सं.) मद्रास, चेन्नै – 600 036

संपर्क सूत्र के लिए दूरभाष : 91-44-22578200

सूचना के लिए वेबसाइट : www.iitm.ac.in

गेट 2019 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। गेट परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, देश के अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी / वास्तुशिल्प / विज्ञान में स्नातकोत्तर (निष्णात एवं वाचस्पति) पाठ्यक्रमों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अन्य सरकारी छात्रवृत्तियों / सहायक वृत्तियों के साथ प्रवेश खुला है। गेट स्कोर का प्रयोग कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी भर्ती के लिए करते हैं। परीक्षा परिणाम घोषित होने की तारीख से केवल तीन वर्ष के लिए ही गेट 2019 का स्कोर वैध माना जाएगा। गेट 2019 परीक्षाएँ भारत के 8 क्षेत्रों के चुनिंदा शहरों एवं नगरों में और साथ ही विदेश के निम्नलिखित शहरों में भी आयोजित की जाएंगी : अदिस अबाबा (एथियोपिया), कोलंबो (श्रीलंका), ढाका (बंगलादेश), दुबई (यू ए ई) काठमांडू (नेपाल) एवं सिंगपुर।

पात्रता : निम्नलिखित अभ्यर्थी ही गेट 2019 परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

(क) अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी में स्नातक [10+2 के बाद 4 वर्ष या बी एस सी / डिप्लोमा (अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी में) के बाद 3 वर्ष की स्नातक] उपाधि धारक तथा उक्त पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी।

(ख) वास्तुशिल्प (5 वर्षीय पाठ्यक्रम) के स्नातक उपाधि धारक तथा उक्त पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी।

(ग) विज्ञान (बी एस) के 4 वर्षीय कार्यक्रम के स्नातक उपाधि धारक तथा उक्त पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी।

(घ) विज्ञान/गणित/सांख्यिकी/कम्प्यूटर अनुप्रयोग अथवा समकक्ष विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक तथा उक्त पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी।

(ङ) अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी के 4-वर्षीय एकीकृत निष्णात पाठ्यक्रम (बी एस सी-उपरांत) के द्वितीय अथवा उच्चतर वर्ष के अभ्यर्थी।

(च) अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी में द्वि-उपाधि या 5-वर्षीय एकीकृत विज्ञान निष्णात पाठ्यक्रम के चतुर्थ अथवा उच्चतर वर्ष के अभ्यर्थी।

(छ) 5-वर्षीय एकीकृत प्रौद्योगिकी निष्णात या 5-वर्षीय एकीकृत विज्ञान स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी।

(ज) यू पी एस सी/ए आई सी टी ई/एम एच आर डी द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा आयोजित बी ई/बी टेक के समकक्ष परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का ए एम आई ई के सेक्शन ए या इसके समकक्ष पूर्ण कर लिया है, वे अभ्यर्थी भी पात्र होंगे।

परीक्षा प्रारूप : सभी प्रश्नपत्र की परीक्षा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा होगी।

आवेदन जमा करने की महत्वपूर्ण तिथियाँ	प्रारंभ तिथि:	1 सितंबर 2018
	अंतिम तिथि:	21 सितंबर 2018
	विस्तारित अवधि के साथ अंतिम तिथि:	1 अक्टूबर 2018

परीक्षा की तिथियाँ	2, 3, 9 और 10 फरवरी 2019
--------------------	--------------------------

आवेदन शुल्क	भारत में परीक्षा केन्द्रों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क ₹ 750, अ.जा./ अ.ज.जा./शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए ₹ 750 एवं अन्य अभ्यर्थियों के लिए ₹ 1500 है। विस्तारित अवधि के दौरान आवेदन शुल्क ₹ 500 ज्यादा है। दुबई और सिंगपुर परीक्षा केन्द्रों के लिए आवेदन शुल्क यू एस \$ 100 और अदिस अबाबा, कोलंबो, ढाका और काठमांडू के लिए यू एस \$ 50 है। विस्तारित अवधि के दौरान आवेदन शुल्क यू एस \$ 20 ज्यादा है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आवेदन प्रक्रिया:	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं जमा करने की विस्तृत जानकारी हेतु कृपया गेट 2019 की वेबसाइट : www.gate.iitm.ac.in का अवलोकन करें।	
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

क्षेत्रीय गेट कार्यालय परीक्षा के लिए शहरों/कस्बों की संभावित सूची (मामूली बदलाव के अधीन)

अध्यक्ष, गेट, भा.वि.सं., बेंगलूर बेंगलूर-560 012 वेबसाइट : gate.iisc.ac.in	अनंतपुरम, अंगमाली, बागलकोट, बल्लारी (बेल्लारी), बेलगावी (बेलगाम), बेंगलूर, बीदर, दावणगेरे, हासन, हुब्ली (हुबली), हैदराबाद, कल्लुर्गी (गुलबर्गा), कण्णूर, कासरगोड, कोलार, कोलिकोड, कर्नूल, मलप्पुरम, मंगलूर, मणिपाल, मैसूर (मैसूर), पालक्काड, पय्यनूर, पोर्ट ब्लेयर, शिवमोग्गा (शिमोग्गा), तिशूर, तुमकुर, वटकारा
अध्यक्ष, गेट, भा.प्रौ.सं., बॉम्बे मुंबई, मुंबई – 400 076 वेबसाइट : gate.iitb.ac.in	अहमदाबाद, अहमदनगर, अमरावती, आनंद, औरंगाबाद, बारामती, भावनगर, भुज, गांधीनगर, गोवा, जलगाँव, कंकावली, कोल्हापुर, मेहसाना, मुंबई, नागपुर, नांदेड, नासिक, नवी मुंबई, पुणे, राजकोट, रजगिरी, सांगली, सतारा, सोलापुर, सूरत, ठाणे, वडोदरा
अध्यक्ष, गेट, भा.प्रौ.सं., दिल्ली हौजखास, नई दिल्ली – 110 016 वेबसाइट : gate.iitd.ac.in	अजमेर, अलवर, बहादुरगढ़-रोहतक, बिकानेर, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, हिसार, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करनाल, कोटा, मथुरा, नई दिल्ली, साम्बा, सीकर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उज्जैन
अध्यक्ष, गेट, भा.प्रौ.सं., गुवाहाटी गुवाहाटी- 781 039 वेबसाइट : iitg.ac.in/gate-jam	अगरतला, अरराह, आसनसोल, बिहार शरीफ, धनबाद, डिब्रूगढ़, दुर्गापुर, गंगटोक, गया, गुवाहाटी, इंफॉल, ईटानगर, जोरहाट, कल्याणी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, शिलांग सिलचर, सिलीगुड़ी, तेजपुर
अध्यक्ष, गेट, भा.प्रौ.सं., कानपुर कानपुर – 208 016 वेबसाइट : gate.iitk.ac.in	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, भोपाल, गोरखपुर, ग्वालियर, जबलपुर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी
अध्यक्ष, गेट, भा.प्रौ.सं., खड़गपुर खड़गपुर – 721 302 वेबसाइट : gate.iitkgp.ac.in	बालासोर, बरहामपुर (ओडिशा), भिलाई, भीमवरम, भुवनेश्वर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), कटक, एलुरु, हुगली, जमशेदपुर, काकीनाडा (सूरमपालेम), खड़गपुर, कोलकाता, रायपुर, राजमहेन्द्रवरम (राजमुंद्री), रांची, राउरकेला, सम्बलपुर, श्रीकाकुलम-विजियानगरम, ताडिपल्लिगुडम, विजयवाड़ा, विशाखपट्टणम, विजयनगर
अध्यक्ष, गेट, भा.प्रौ.सं., मद्रास चेन्नै – 600 036 वेबसाइट : gate.iitm.ac.in	आलपुला, आलुवा, आर्टिगल, बापटला-चिराला, चेंगलूर, चेन्नै, चित्तूर, कोयंबतूर, कडलूर, दिंडुक्कल, एर्णाकुलम, ईरोड-तिरुचेंगोड, गुडुर, गुंटूर, इडुक्कि, कडपा, कंजीरापल्ली, कन्याकुमारी-नागरकोइल, करीमनगर, करूर, खम्मम, कोल्लम, कोतमंगलम, कोट्टयम, मद्रुरै, मुवट्टूपुला, नलगोंडा, नामक्कल, नेडुमगाड, नेल्लूर, ओगोल, पाला, पुदुचेरी (पाण्डिचेरी), पुनलूर, सेलम, तंजावूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुवण्णमलै, तिरुच्चिरापल्ली, तिरुनेल्वेली, तिरुपति, तूटिकोरिन, वेल्लूर, विलुपुरम, विरुदुनगर, वरंगल
अध्यक्ष, गेट, भा.प्रौ.सं., रुड़की रुड़की – 247 667 वेबसाइट : gate.iitr.ac.in	अम्बाला, अमृतसर, बदी (हि.प्र.), भटिंडा, भीमताल, देहरादून, फतेहगढ़ साहिब, गाजियाबाद, हल्दवानी, हमीरपुर(हि.प्र.), जालंधर, कुरुक्षेत्र, लुधियाना, मेरठ, मोहाली, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, पानीपत, पठानकोट, पटियाला, फगवारा, रुड़की, रोपर, सहारनपुर, संगरूर, शिमला, सोलन, सोनीपत, ऊना, यमुनानगर
अंतर्राष्ट्रीय, भा.प्रौ.सं., मद्रास	अदिस अबाबा (एथियोपिया), कोलंबो (श्रीलंका), ढाका (बंगलादेश), दुबई (यू ए ई) काठमांडू (नेपाल) एवं सिंगपुर

‘भा.प्रौ.सं. मद्रास किसी भी प्रकार की छपाई त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, यदि कोई हो।’ किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।